

## जनपद बाराबंकी

दिनांक- 15.10.2020

जनपद बाराबंकी की थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा चोरी की घटना का किया गया सफल अनावरण, दो शातिर चोरों को गिरफ्तार कर कब्जे से चोरी के सोने-चांदी के जेवरात, मोबाइल सहित 500 ग्राम मारफीन व 4000/-रुपये नकद बरामद-

थाना कोतवाली नगर पुलिस को चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए दो शातिर चोरों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी किये गये सोने-चांदी के जेवरात, मोबाइल सहित 500 ग्राम मारफीन व 4000/-रुपये नकद बरामद करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई ।

### गिरफ्तार अभियुक्तगण-

1. बबलू पुत्र मो० अजीज निवासी बड़ेल थाना कोतवाली नगर जनपद बाराबंकी।
2. मोहम्मद कलीम पुत्र बाबू निवासी बड़ेल थाना कोतवाली नगर जनपद बाराबंकी मूल निवासी ग्राम सुद्धियामऊ थाना रामनगर जनपद बाराबंकी।

### बरामदगी-

1. पांच जोड़ी पायल सफेद धातु
2. पांच जोड़ी बिछिया सफेद धातु
3. सुपारी 05 जोड़ी
4. 01 अदद नारियल एक सफेद धातु
5. दो जोड़ी कान का बाला पीली धातु
6. 01 अदद अंगूठी पीली धातु
7. 01 अदद सुई पीली धातु
8. 01 लाकेट चेन पीली धातु
9. एक अदद चोरी का कीपेड मोबाइल सैमसंग
10. 500 ग्राम मारफीन
11. 4000 हजार रूपये नकद

दिनांक-24.07.2020 को श्री पीयूष दीक्षित पुत्र संतोष कुमार दीक्षित निवासी प्रजापुरम लखपेड़ाबाग थाना कोतवाली नगर जनपद बाराबंकी अपने परिवार के साथ मूलनिवास कटैया मजरे अम्बौर थाना जैदपुर जनपद बाराबंकी गये थे। वापस आने पर उन्होंने देखा कि घर का ताला टूटा हुआ है तथा सारा सामान बिखरा पड़ा है, घर में अज्ञात चोरों द्वारा चोरी की गयी है। इस सम्बन्ध में वादी श्री पीयूष दीक्षित द्वारा थाना कोतवाली नगर पर सूचना दी गयी, जिस पर थाना कोतवाली नगर में मु०अ०सं०-532/2020 धारा 457/380 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया।

पुलिस अधीक्षक बाराबंकी द्वारा उक्त घटना का संज्ञान लेते हुए अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी श्री आर.एस. गौतम के पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी नगर सुश्री सीमा यादव के नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर द्वारा अभिसूचना विकसित की जा रही थी।

इसी क्रम में कोतवाली नगर पुलिस द्वारा अभिसूचना विकसित करते हुए आज दिनांक 15.10.2020 को वादीनगर कट लखनऊ-फैजाबाद हाइवे के पास से दो अभियुक्त 1. बबलू पुत्र मो0 अजीज निवासी बड़ेल थाना कोतवाली नगर जनपद बाराबंकी 2. मोहम्मद कलीम पुत्र बाबू निवासी बड़ेल थाना कोतवाली नगर जनपद बाराबंकी मूल निवासी ग्राम सुढ़ियामऊ थाना रामनगर जनपद बाराबंकी को समय 11.30 बजे गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के कब्जे से चोरी के जेवरात-पांच जोड़ी पायल सफेद धातु, पांच जोड़ी बिछिया सफेद धातु, सुपारी 05 अदद, 01 अदद नारियल सफेद धातु, दो जोड़ी कान का बाला पीली धातु, 01 अदद अंगूठी, 01 अदद सुई, 01 लाकेट चेन पीली धातु, एक अदद चोरी का कीपेड मोबाइल सैमसंग (सम्बन्धित मु0अ0सं0 532/2020 धारा 457/380 भादवि थाना कोतवाली नगर) व 250-250 ग्राम कुल 500 ग्राम मारफीन तथा कुल 4000 हजार रुपये नकद बरामद किया गया। उक्त बरामदगी के आधार पर उक्त अभियोग में धारा 411 भादवि की बढ़ोतरी की गयी तथा बरामद मारफीन के सम्बन्ध में अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना कोतवाली नगर पर मु0अ0सं0 868-869/2020 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया।

पूछताछ व अभिसूचना एकत्र करने से प्रकाश में आया कि अभियुक्तगण शातिर किस्म के अपराधी हैं जो बन्द मकानों को टारगेट कर पहले रेकी करते हैं और रात में मौका पाकर चोरी की घटना को अंजाम देते हैं। अभियुक्तगण ने पूछताछ में यह भी बताया कि उपरोक्त चोरी की घटना में बरामद जेवरात के अतिरिक्त और भी सोने चांदी के जेवर मिले थे जिसे हमलोगों ने एक सुनार संदीप वर्मा पुत्र रामकृष्ण निवासी घंटाघर सरावगी मोहल्ला थाना कोतवाली नगर जनपद बाराबंकी के यहां ले जाकर बेच दिया था। संदीप वर्मा नामक सुनार की तलाश की जा रही है।

### **अपराधिक इतिहास-**

1. बबलू पुत्र मो0 अजीज निवासी बड़ेल थाना कोतवाली नगर जनपद बाराबंकी।

1- मु0अ0सं0-532/2020 धारा 457/380/411 भादवि थाना कोतवाली नगर जनपद बाराबंकी ।

2- मु0अ0सं0 653/2017 धारा 452/354क/323/504/506 भादवि थाना कोतवाली नगर जनपद बाराबंकी।

3- मु0अ0सं0 868/2020 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना कोतवाली नगर जनपद बाराबंकी।

2. मोहम्मद कलीम पुत्र बाबू निवासी बड़ेल थाना कोतवाली नगर जनपद बाराबंकी मूल निवासी ग्राम सुढ़ियामऊ थाना रामनगर जनपद बाराबंकी।

1- मु0अ0सं0-532/2020 धारा 457/380/411 भादवि थाना कोतवाली नगर जनपद बाराबंकी ।

2- मु0अ0सं0 869/2020 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना कोतवाली नगर जनपद बाराबंकी।

### **पुलिस टीम-**

1. प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर जनपद बाराबंकी।

2. उ0नि0 श्री शशिकान्त सिंह जनपद बाराबंकी।

3. हे0का0 शिव मूरत थाना कोतवाली नगर जनपद बाराबंकी।

4. का0 दिनेश सिंह, का0 दीपक कुमार थाना कोतवाली नगर जनपद बाराबंकी।